

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



[Please scan this QR Code to view the Prospectus]

ZELIO E-MOBILITY LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited Company in the name of “Zelio Auto Private Limited” under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated on July 15, 2021 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, bearing CIN: U34102HR2021PTC096362. Further, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on October 25, 2024, the name of our Company was changed from “Zelio Auto Private Limited” to “Zelio E-Mobility Private Limited” and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre vide letter dated November 21, 2024. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 22, 2024 and consequently the name of our Company was changed from “Zelio E-Mobility Private Limited” to “Zelio E-Mobility Limited” vide a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company dated November 29, 2024 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. Our Company’s Corporate Identity Number is U34102HR2021PLC096362.

Registered Office: Shop No. 542, 1st Floor, Auto Market, Hisar – 125001, Haryana, India; **Corporate Office:** Khewat No. 510 442, Hisar Road, Ladwa, Hisar – 125006, Haryana, India.
Tel No: +91 – 9254993057/ 9254071396; **E-mail:** cs@zelioebikes.com; **Website:** www.zelioebikes.com
Contact Person: Priyanka Garg, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: NIRAJ ARYA, KUNAL ARYA, DEEPAK ARYA AND SAYURI ARYA

“THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE (BSE SME).”

We are primarily engaged in the business of manufacturing, assembling and supplying of electric vehicles, offering a range of electric two-wheelers (“**E-2Ws**”) and three-wheelers (“**3Ws**”), available in a variety of design, color, speed variants etc. We are an ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company, operating under the brand name “*Zelio*” for E-2Ws and “*Tanga*” for 3Ws and focussing exclusively on the production of E-2Ws and 3Ws which serves environmental benefits such as lower emissions, reduced noise, energy sustainability etc. We launched the first range of electric scooters in FY 2021-22 and operate through a network of exclusive and non-exclusive dealers spanning across urban, semi-urban, and rural areas.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 57,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ZELIO E-MOBILITY LIMITED (“OUR COMPANY” OR “THE ISSUER”) AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 126 PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 7833.60 LAKHS (“PUBLIC OFFER”) COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 46,20,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 6,283.20 LAKHS (THE “FRESH ISSUE”) AND AN OFFER FOR SALE OF 11,40,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS (“OFFER FOR SALE”) AGGREGATING TO ₹ 1,550.40 LAKHS COMPRISING; 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY NIRAJ ARYA; 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY KUNAL ARYA AND 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY DEEPAK ARYA (COLLECTIVELY REFFERD AS “PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS”) OUT OF WHICH 2,94,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 399.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 54,66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 7,433.76 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET OFFER”. THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.23% AND 25.84% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS.10 AND OFFER PRICE IS RS. 136 EACH. THE OFFER PRICE IS 13.6 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: RS. 136 PER EQUITY SHARE. THE OFFER PRICE IS 13.6 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025

BID / OFFER OPENED ON: TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025

BID / OFFER CLOSED ON: FRIDAY, OCTOBER 03, 2025

RISKS TO INVESTORS:

- a) Our Company has been recently formed, thus we have limited operating history as a Company which may make it difficult for investors to evaluate our historical performance or future prospects.
- b) Our Company is dependent on limited number of suppliers within limited geographical location for procurement of raw materials. Any delay, interruption or reduction in the supply of raw materials required for our products may adversely affect our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- c) We generate our major portion of turnover from our operations in certain geographical regions and any adverse developments affecting our operations in these regions could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- d) We source our majority of the raw materials from international market i.e. China. Any adverse developments affecting our procurement in this region could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- e) We require certain approvals, licenses, registrations and permits to operate our business, and failure to obtain or renew them in a timely manner or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business may adversely affect our operations and financial conditions.
- f) Our historical performance is not indicative of our future growth or financial results and we may not be able to sustain our historical growth rates.
- g) Our business is dependent on our manufacturing unit and we are subject to certain related risks; Unplanned slowdowns, unscheduled shutdowns or prolonged disruptions in our manufacturing operations could have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- h) We may not be able to adequately protect or continue to use our intellectual property.
- i) The restated financial statements have been provided by peer reviewed chartered accountants who is not statutory auditor of our company.
- j) We have experienced negative operating cash flows in the past. Any operating losses or negative cash flows in the future could adversely affect our results of operations and financial conditions.
- k) The Merchant Banker associated with the Issue has handled 70 public issues in the past three years out of which 3 SME Issue closed below the Issue Price on listing date.

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	68	3 (SME)

- i) Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters and Selling Shareholder are

Sr. No.	Name of Promoter Selling Shareholder	Type	No. of Shares Offered	Average Cost of Acquisition (in ₹)
1.	Niraj Arya	Promoter	55,09,449	0.02
2.	Kunal Arya	Promoter	55,08,898	0.02
3.	Deepak Arya	Promoter	55,09,449	0.02

and the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 136 per Equity Share.

- m) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 14.05
- n) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024, and 2023 is 61.42%.
- o) The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest rice – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 Months & three years preceding the date of the Prospectus	NIL	NIL	NIL

- p) The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares of face value of Rs. 10/-)	Floor Price (i.e. ₹129)	Cap Price (i.e. ₹136)
Weighted average cost of acquisition of primary / new Offer	NA^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition	NA^^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances/ secondary transactions	NIL	NIL	NIL

Note:

^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned, in last 18 months from the date of the Prospectus.

^^There were no secondary transactions as mentioned, in last 18 months from the date of the Prospectus.

PROPOSED LISTING: OCTOBER 08, 2025 *

The Offer was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (“SCRR”) read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”, the “QIB Portion”). Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (“Anchor Investor Portion”). Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see “*Offer Procedure*”beginning on page 279 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or before October 08, 2025*

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE (“**BSE SME**”).

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on September 29, 2025. The Company received 8 Anchor Investors applications for 19,55,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹136/- per Equity Share. A total of 16,39,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹ 22,29,04,000/-.

The Offer (excluding Anchor Investors Portion) received 1,339 Applications for 58,09,000 Equity Shares (after considering invalid bids. Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB and rejections) resulting 1.41 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Offer from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	Spill Over (if Any)	Equity Shares Allotted*	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1	Individual Investors	1,257	25,14,000	19,14,000	-	19,14,000	1.31	34,45,96,000.00
2	Non-institutional Investors (More than ₹0.2 million and upto ₹ 1 million)	55	1,76,000	2,74,000	(98000)	1,76,000	1:00	2,43,23,000.00
3	Non-institutional Investors (above ₹1 million)	23	10,69,000	5,46,000	98000	6,44,000	1.66	17,02,81,000.00
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	3	17,56,000	10,93,000	-	10,93,000	1.61	23,88,16,000.00
5	Market Maker	1	2,94,000	2,94,000	-	2,94,000	1.00	3,99,84,000.00
	Total	1,339	58,09,000	41,21,000	-	41,21,000	1.41	81,80,00,000.00

*Spill over from under subscription of Non-Institutional Investor Category upto Rs. 10 lacs of 98,000 shares has been re-allocated to Non-Institutional Investor category above Rs. 10 lacs category

Final Demand:

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	129	2,12,000	2.77	2,12,000	2.77
2	130	2,000	0.03	2,14,000	2.80
3	131	2,000	0.03	2,16,000	2.83
4	133	2,000	0.03	2,18,000	2.85
5	135	8,000	0.10	2,26,000	2.96
6	136	74,14,000	97.04	76,40,000	100.00
	Total	76,40,000	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being BSE Limited (“**BSE SME**”) on October 06, 2025.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹ 136 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.31 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 19,14,000 Equity to 957 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
2,000	1,257	100.00	25,14,000	100.00	2,000	319:419	19,14,000

2) Allotment to Non-Institutional Investors (More than 2 lots and up to ₹ 1,000,000) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 136 or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.00 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,76,000 Equity Shares to 55 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

3) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 1,000,000)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 136 or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.66 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 6,44,000 Equity shares (i.e. Including Spilled over of 98,000 Equity Shares from Non-Institutional Investors up to ₹ 1,000,000) to 23 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under (Sample):

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
1.	8,000	15	65.22	1,20,000	11.23	5,000	1:1	75,000
	8,000	13,000 additional shares allocated in the ratio of 13:15				1,000	13:15	13,000
2.	10,000	3	13.04	30,000	2.81	7,000	1:1	21,000
3.	18,000	1	4.35	18,000	1.68	12,000	1:1	12,000
4.	20,000	1	4.35	20,000	1.87	13,000	1:1	13,000
5.	73,000	2	8.70	1,46,000	13.66	43,000	1:1	86,000
6.	7,35,000	1	4.35	7,35,000	68.76	4,24,000	1:1	4,24,000
	TOTAL	23	100.00	10,69,000	100.00			6,44,000

4)Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Offer Price of ₹ 136/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 2,94,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 2,94,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/allotted
2,94,000	1	100.00	2,94,000	100.00	2,94,000	1:1	2,94,000

5)Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 136/- or above per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 1.61 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 10,93,000 Equity Shares, which were allotted to 3 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	-	-	-	6,80,000	1,84,000	2,29,000	-	10,93,000

6)Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections):

The Company in consultation with the BRLM has allocated 16,39,000 Equity Shares to 08 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹ 136 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	VC'S	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	74,000	10,70,000	4,95,000	-	16,39,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on October 06, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on or before October 07, 2025. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on October 07, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on October 08, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated October 06, 2025, filed with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana (“RoC”).

Continued on next page

Continued from previous page


INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Offer, Maashitla Securities Private Limited at website: www.maashitla.com

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Offer has handled 70 Public Issues in the past three financial years, out of which 3 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	68	3 (SME)

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:



MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED
Address: 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi, 110034, India.
Tel No: 011-47581432 ; **Email:** ipo@maashitla.com
Investor Grievance ID: investor.ipo@maashitla.com
Contact Person: Mukul Agrawal ; **Website:** www.maashitla.com
SEBI Registration No.: INR000004370 ; **CIN:** U67100DL2010PTC208725

On behalf of Board of Directors
Zelio E-Mobility Limited
Sd/-
Priyanka Garg
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hisar, Haryana
Date: 07 October, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ZELIO E-MOBILITY LIMITED
Disclaimer: *Zelio E-Mobility Limited has filed the Prospectus with the RoC on October 06, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: www.zelioebikes.com and shall also be available on the website of the BSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus.*
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.

**VESUVIUS INDIA LIMITED**
CIN: L26933WB1991PLC052968
Registered Office: P-104, Taratala Road, Kolkata 700088
Telephone: +91 33 61090500
Email: vesuviusindia@vesuvius.com, Website: www.vesuviusindia.in

Notice of Postal Ballot and Remote E-Voting

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 110 and 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Rules") General Circulars Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, and 17/2020 dated April 13, 2020 and read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter, collectively referred to as the "MCA Circulars"), revised Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI LODR"), and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Vesuvius India Limited (the "Company") is seeking approval of the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot only through remote e-voting in respect of the following Special Resolutions:

Item no.	Brief description of the Resolution	Resolution type
1.	Appointment of Ms. Rashmi Joshi (DIN : 06641898) as an Independent Director of the Company for a period of five consecutive years with effect from September 24, 2025.	Special
2.	Appointment of Mr. Sridhar Gorthi (DIN : 00035824) as an Independent Director of the Company for a period of five consecutive years with effect from September 24, 2025.	Special
3.	Appointment of Mr. Biswapati Gupta (DIN : 00048258) as a Non-executive Non-Independent Director of the Company, liable to retire by rotation.	Special

The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Company, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, October 3, 2025, being the Cut-Off Date.

The Company on Tuesday, October 7, 2024 has completed sending Postal Ballot Notice through electronic means containing details related to login-id and password for e-voting to the shareholders whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at www.vesuviusindia.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Voting through electronic mode

In compliance with the applicable provisions of the Act, the MCA Circulars and Regulation 44 of the SEBI LODR, as aforesaid, the Company has engaged NSDL as the agency to provide e-voting facility. The Remote e-voting period shall commence on Thursday, October 9, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Friday, November 7, 2025 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member as on the Cut-Off Date i.e., Friday, October 3, 2025. The instruction for remote e-voting is appended in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company have appointed Ms. Amber Ahmad (ICSI Membership No. FCS 9312; COP No. 8581) of M/s. Amber Ahmad & Associates, Company Secretaries, Kolkata, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

If any member who has registered their email address and have not received Postal Ballot Notice, user id and password for remote e-voting, such member may write to vesuviusindia@vesuvius.com from their registered email id to receive the same.

The shareholders who have not registered/updated their e-mail IDs so far are requested to register/update the same to get all notices, communications, etc. from the Company, electronically, as per the following procedure:

For Physical shareholders - Please provide duly filled in and signed Form ISR-1 along with the required documents to RTA at M/s C B Management Services (P) Limited at Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata – 700001.


For Demat shareholders - Please update your e-mail id and mobile number with your Depository through their Depository Participant(s).

The results of the Postal Ballot will be announced on or before 5.00 p.m. on Tuesday, November 11, 2025. The result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer Report would be intimated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") where the equity shares of the Company are listed and would also be placed on the websites of the Company and NSDL i.e., www.vesuviusindia.in and www.evoting.nsdl.com, respectively, and shall also be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com or may contact Mr. Saheb Ali, Company Secretary of the Company at vesuviusindia@vesuvius.com.

By order of the Board of Directors
Vesuvius India Limited
Sd/-
Saheb Ali
Registered Office: Company Secretary and Compliance Officer
P-104, Taratala Road, Kolkata 700088
Membership No. A33361

Date: October 7, 2025

**Stressed Assets Management Branch: 104, Bharat House, Ground Floor, Mumbai Samachar Marg, Mumbai – 400023 |**
Email: sammumbai@unionbankofindia.bank

ADVERTISEMENT SEEKING EXPRESSION OF INTEREST ("EOI") IN RESPECT OF TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE OF SAHARA HOSPITALITY LIMITED ("SHL") TO THE PERMITTED ENTITIES BY PARTICIPATING UNDER SWISS CHALLENGE PROCESS

Union Bank of India ("UBI"), on behalf of consortium of lenders comprising of Union Bank of India, Central Bank of India, UCO Bank, IDBI Bank Ltd and Karnataka Bank Ltd (collectively "Lenders" or "Consortium Lenders") invites Expression of Interest ("EOI") from eligible ARCs/Banks/NBFCs/AIFs or any other transferees (collectively "Permitted Entities" or "Bidders"), eligible/permitted under the applicable laws and also the guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), including the Master Direction - Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021, as amended from time to time ("RBI Master Directions") and each Lenders' internal Board approved policy. Lenders propose to assign/transfer the Stressed Loan Exposure of SHL with total outstanding of **Rs. 728.58 Crore (Rupees Seven Hundred and Twenty-Eight Crore and Fifty-Eight Lakh Only)** to the Permitted Entities on "All Cash" basis pursuant to an existing offer in hand ("Anchor Bid") made by an original offer or ("Anchor Bidder"), by following the process as per Bid Process Document ("BPD") through Swiss Challenge Method ("SCM") by way of online e-auction, strictly on "as is where is", "as is what is", "as is how is", "whatever there is" and "without recourse" basis. BOB Capital Markets Limited ("BOBCAPS") has been appointed as the Lender's Process Advisor ("PA").

Name and Address of the Borrower/Mortgagor	M/s. Sahara Hospitality Limited ("SHL") Regd. Off: Hotel Sahara Star, Opp. Domestic Airport, Vile Parle (E), Mumbai – 400099, Maharashtra, India.
Last Date of Submission of EOI, NDU, Affidavit & RPF	October 13, 2025 at 5 PM
Date of Inspection	October 14, 2025 to October 29, 2025 (working days only) between 11 am to 5 pm
Last Date for access to VDR and Due Diligence	October 29, 2025
Offer in Hand from Anchor Bidder/Reserve Price	Rs. 279.00 Crore (Rupees Two Hundred Seventy-Nine Crore Only)
Refundable Participation Fee (RPF)	Rs. 25.00 Lakh (Rupees Twenty-Five Lakh Only)
Minimum Markup @5% of Anchor Bid	Rs. 14.00 Crore (Rupees Fourteen Crore Only)
Bidding Start Price	Rs. 293.00 Crore (Rupees Two Hundred Ninety-Three Crore Only)
Incremental Amount (Bid Multiplier)	Minimum of Rs. 5.00 Crore (Rupees Five Crore only)
Date & Time of E-auction	October 30, 2025 at 11 am to 1 pm
Details of Dealing Officer	Mr. Milind Dhanorkar, Sr. Manager Email: sammumbai@unionbankofindia.bank

Other Terms and Condition

The Bid Process Document containing the format of EOI, other documents are available on the PA's website (<https://www.bobcaps.in/tenders>). Interested bidders should submit the necessary documents electronically vide email to projectspace@bobcaps.in and physically at "K/A Mr. Sagar Bhadra, BOB Capital Markets Limited, B-1704, Parinee Crescenzo, G Block, BKC, Bandra (East), Mumbai 400051". The deadline for submission of same is October 13, 2025 by 5 PM.

Upon submission of necessary documents, deposit of RPF and approval of lenders (if required), the shortlisted eligible bidders would be allowed to access to Virtual Data Room ("VDR"), further information including the Information Memorandum (if any) for commencing due diligence in the account of SHL and followed by participation in the e-auction on October 30, 2025 from 11 am to 1 pm.

Any of the terms & conditions of the EOI & BPD may be amended or changed or the entire bidding process may be terminated at any stage by the Lenders or BOBCAPS without assigning any reason. All key information in relation to the bidding process will be available on the PA's website under "Tenders" tab. Bid applicants must, at all times, keep themselves apprised of the latest updates/ clarifications/ amendments/ time extensions, if any, (including the process documents) in this regard as uploaded on the Process Advisor's website. BOBCAPS or Lenders shall not be held liable for any failure on part of the bid applicants to keep themselves up-to-date of such modifications. Lenders will not assume any Operational, Legal or any other type of risk relating to the loan exposure.

For further details contact
1) Mr. Sagar Bhadra – AVP; Phone: +917666412395;
2) Mr. Hemant Gupta – SM; Phone: +919819436276;
Email: projectspace@bobcaps.in

For detailed Terms & Conditions of the bid process, Please refer to the link provided on Union Bank of India website: <https://unionbankofindia.co.in> or BOBCAPS website <https://www.bobcaps.in/tenders>

Sd/-
Mr. Milind Dhanorkar, SM
Dealing Officer
Union Bank of India

Place: Mumbai
Date: October 8, 2025

**Regd. Office:** IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019
Tel: 011-41732000
Email: sa@ifcilt.com
Website: www.ifcilt.com
CIN: L74899DL1993GOI053677

"Notice for Request for Proposal (RFP)"

IFCI Limited intends to sell its equity shareholding in "Investee Company". Propective buyers may visit IFCI's website <https://www.ifcilt.com/> for further details.

Place: New Delhi
Date: October 8, 2025

Sd/-
General Manager

**CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED**
CIN: L24124RJ1985PLC003293
Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN - 325 208
Telephone No. : 91-744-2782915, Fax: 91-7455-274130
Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi -110 025; Telephone Nos.: 91-11-46581300 & 41697900, Fax: 91-11-40638679; E-mail: isc@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the share certificates as per details given below have been reported lost by the shareholder and he has applied for issue of duplicate share certificates.

S. No.	Name of Shareholder	Certificate Nos.	No. of Shares
1.	Shashikant Madhukarrao Chidre	1982340-1982349	1,000

Any person who has a claim in respect of the aforesaid certificates should lodge the claim with the Company so as to reach at its Corporate Office at New Delhi within 7 days from the date hereof. The Company will proceed to issue duplicate share certificates/letter of confirmation after the expiry of the said period of 7 days and shall not entertain claims received subsequently.

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
Sd/-
Tridib Barat
Vice President – Legal & Company Secretary

Place: New Delhi
Date : October 07, 2025



ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

CIN: L18101MH2007PLC233901

Registered Office: Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor, Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai - 400 070, Maharashtra, India;
Website: www.abrl.com | Email: secretarial@abrl.adityabirla.com | Tel.: +91 - 86529 05000

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a Special Window has been opened for a period of 6 months commencing from July 7, 2025 to January 6, 2026 for re-lodgement of transfer deeds, which were originally lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/returned due to deficiency in the documents or otherwise missed the extended timeline of March 31, 2021 for re-lodging their documents for transfer of securities.

Investors who have missed the aforementioned timeline for re-lodging their documents for transfer of securities are requested to furnish the necessary documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MUFG Intime India Private Limited [Formerly Link Intime India Private Limited] at their email ID mt.helpdesk@in.mpmns.mufg.com or at their office at C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai -400083 or the Company at secretarial@abrl.adityabirla.com.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company/ RTA as on date, if any) and being verified by the RTA shall be issued only in Demat Mode. Shareholders raising the request must have a demat account and shall provide their Client Master List, along with the original transfer documents and share certificate(s) while re-lodging the documents for transfer with the RTA.

For Aditya Birla Fashion and Retail Limited
Sd/-
Anil Malik
President & Company Secretary
ACS 11197

Date : October 7, 2025
Place : Mumbai

An Aditya Birla Group Company

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — every day with Stocks in the News in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out

**APAR Industries Limited**
(CIN : L91110GJ1989PLC012802)
Registered Office : 301, Panorama Complex, R. C. Dutt Road, Vadodara - 390 007 (Gujarat), India.
Phone : (+91) (0265) 6178740, 2339906 Website : www.apar.com E-mail : com.sec@apar.com

NOTICE OF THE SHAREHOLDERS
SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, shareholders who had lodged their transfer deeds for physical shares prior to the deadline of April 1, 2019 and whose requests were rejected, returned or not attended to due to deficiencies in documents, processes or other reasons and who missed re-lodging their requests before the cut-off date of March 31, 2021 are now granted one more opportunity to re-lodge their transfer requests. **This special window for re-lodgement will be available for six months from July 7, 2025 to January 6, 2026.** During this period, all shares that are re-lodged for transfer (including any pending requests with the listed Company / RTA as of the current date) will be issued only in demat mode. The necessary procedures for transfer-cum-demat requests will be followed.

Accordingly, as requested earlier vide Notice published on July 25, 2025, eligible shareholders are requested to re-submit their transfer requests to our Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited). Please find their contact details below :

MUFG Intime India Private Limited, "Geetakunj" 1, Bhakti Nagar Society, Behind ABS Tower, Old Padra Road, Vadodara - 390 015. (Gujarat) India. Tel.: (+91) (0265) 3566768
E-mail: investor.helpdesk@in.mpmns.mufg.com Website : <https://in.mpmns.mufg.com/>

For APAR Industries Limited
Sanjaya Kunder
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : October 07, 2025

NOTICE

RECORD DATE FOR INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL (IDCW)

NOTICE is hereby given that Sundaram Trustee Company Limited, the Trustee to Sundaram Mutual Fund, has declared Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) on the face value of ₹ 10/- and ₹ 1,000/- under the following schemes:

Scheme Name	Plan/Option	Record Date [#]	Amount of IDCW* (₹ Per Unit)	NAV per unit as on October 06, 2025 (Rs.)
Sundaram Low Duration Fund	Regular-IDCW	October 10, 2025	19.024	1110.2603
	Direct-IDCW		19.199	1125.6619
Sundaram Liquid Fund	Regular-IDCW		15.389	1044.8603
	Direct-IDCW		15.391	1046.1855
Sundaram Ultra Short Duration Fund	Regular-IDCW		15.925	1080.6386
	Direct-IDCW		15.937	1089.7021
Sundaram Short Duration Fund	Regular-IDCW		0.225	13.2101
	Direct-IDCW		0.226	13.2997
Sundaram Medium Duration Fund	Regular-IDCW		0.198	13.4700
	Direct-IDCW		0.401	27.4543

[#] Or subsequent business day if the specified date is a non-business day.
^{*} Income Distribution will be done/IDCW will be paid, net of tax deducted at source, as applicable.

Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the scheme will fall to the extent of payout and statutory levy, if applicable. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned IDCW per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower. Past performance may or may not be sustained in future. All unitholders under the IDCW Option of the above-mentioned schemes, whose name appears on the Register of Unitholders on the aforesaid Record Date, will be entitled to receive the IDCW.

For Sundaram Asset Management Company Ltd
R Ajith Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
Date: October 08, 2025

For more information please contact:
Sundaram Asset Management Company Ltd
(Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)
CIN: U93090TN1996PLC034615

Corporate Office: 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14.
Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215
www.sundarammutual.com

Regd. Office: No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme-related documents carefully.

Size 20x17 cms

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



[Please scan this QR Code to view the Prospectus]

ZELIO E-MOBILITY LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited Company in the name of “Zelio Auto Private Limited” under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated on July 15, 2021 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, bearing CIN: U34102HR2021PTC096362. Further, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on October 25, 2024, the name of our Company was changed from “Zelio Auto Private Limited” to “Zelio E-Mobility Private Limited” and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre vide letter dated November 21, 2024. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 22, 2024 and consequently the name of our Company was changed from “Zelio E-Mobility Private Limited” to “Zelio E-Mobility Limited” vide a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company dated November 29, 2024 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. Our Company’s Corporate Identity Number is U34102HR2021PLC096362.

Registered Office: Shop No. 542, 1st Floor, Auto Market, Hisar – 125001, Haryana, India; **Corporate Office:** Khewat No. 510 442, Hisar Road, Ladwa, Hisar – 125006, Haryana, India.
Tel No: +91 – 9254993057/ 9254071396; **E-mail:** cs@zelioebikes.com; **Website:** www.zelioebikes.com
Contact Person: Priyanka Garg, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: NIRAJ ARYA, KUNAL ARYA, DEEPAK ARYA AND SAYURI ARYA

“THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE (BSE SME).”

We are primarily engaged in the business of manufacturing, assembling and supplying of electric vehicles, offering a range of electric two-wheelers (“**E-2Ws**”) and three-wheelers (“**3Ws**”), available in a variety of design, color, speed variants etc. We are an ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company, operating under the brand name “*Zelio*” for E-2Ws and “*Tanga*” for 3Ws and focussing exclusively on the production of E-2Ws and 3Ws which serves environmental benefits such as lower emissions, reduced noise, energy sustainability etc. We launched the first range of electric scooters in FY 2021-22 and operate through a network of exclusive and non-exclusive dealers spanning across urban, semi-urban, and rural areas.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 57,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ZELIO E-MOBILITY LIMITED (“OUR COMPANY” OR “THE ISSUER”) AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 126 PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 7833.60 LAKHS (“PUBLIC OFFER”) COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 46,20,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 6,283.20 LAKHS (THE “FRESH ISSUE”) AND AN OFFER FOR SALE OF 11,40,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS (“OFFER FOR SALE”) AGGREGATING TO ₹ 1,550.40 LAKHS COMPRISING; 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY NIRAJ ARYA; 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY KUNAL ARYA AND 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY DEEPAK ARYA (COLLECTIVELY REFFERD AS “PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS”) OUT OF WHICH 2,94,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 399.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 54,66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 7,433.76 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET OFFER”. THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.23% AND 25.84% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS.10 AND OFFER PRICE IS RS. 136 EACH. THE OFFER PRICE IS 13.6 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: RS. 136 PER EQUITY SHARE. THE OFFER PRICE IS 13.6 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025

BID / OFFER OPENED ON: TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025

BID / OFFER CLOSED ON: FRIDAY, OCTOBER 03, 2025

RISKS TO INVESTORS:

- a) Our Company has been recently formed, thus we have limited operating history as a Company which may make it difficult for investors to evaluate our historical performance or future prospects.
- b) Our Company is dependent on limited number of suppliers within limited geographical location for procurement of raw materials. Any delay, interruption or reduction in the supply of raw materials required for our products may adversely affect our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- c) We generate our major portion of turnover from our operations in certain geographical regions and any adverse developments affecting our operations in these regions could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- d) We source our majority of the raw materials from international market i.e. China. Any adverse developments affecting our procurement in this region could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- e) We require certain approvals, licenses, registrations and permits to operate our business, and failure to obtain or renew them in a timely manner or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business may adversely affect our operations and financial conditions.
- f) Our historical performance is not indicative of our future growth or financial results and we may not be able to sustain our historical growth rates.
- g) Our business is dependent on our manufacturing unit and we are subject to certain related risks; Unplanned slowdowns, unscheduled shutdowns or prolonged disruptions in our manufacturing operations could have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- h) We may not be able to adequately protect or continue to use our intellectual property.
- i) The restated financial statements have been provided by peer reviewed chartered accountants who is not statutory auditor of our company.
- j) We have experienced negative operating cash flows in the past. Any operating losses or negative cash flows in the future could adversely affect our results of operations and financial conditions.
- k) The Merchant Banker associated with the Issue has handled 70 public issues in the past three years out of which 3 SME Issue closed below the Issue Price on listing date.

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	68	3 (SME)

- i) Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters and Selling Shareholder are

Sr. No.	Name of Promoter Selling Shareholder	Type	No. of Shares Offered	Average Cost of Acquisition (in ₹)
1.	Niraj Arya	Promoter	55,09,449	0.02
2.	Kunal Arya	Promoter	55,08,898	0.02
3.	Deepak Arya	Promoter	55,09,449	0.02

and the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 136 per Equity Share.

- m) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 14.05
- n) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024, and 2023 is 61.42%.
- o) The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest rice – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 Months & three years preceding the date of the Prospectus	NIL	NIL	NIL

- p) The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares of face value of Rs. 10/-)	Floor Price (i.e. ₹129)	Cap Price (i.e. ₹136)
Weighted average cost of acquisition of primary / new Offer	NA^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition	NA^^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances/ secondary transactions	NIL	NIL	NIL

Note:

^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned, in last 18 months from the date of the Prospectus.

^^There were no secondary transactions as mentioned, in last 18 months from the date of the Prospectus.

PROPOSED LISTING: OCTOBER 08, 2025 *

The Offer was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (“SCRR”) read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”, the “QIB Portion”). Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (“Anchor Investor Portion”). Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see “*Offer Procedure*” beginning on page 279 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or before October 08, 2025*

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE (“**BSE SME**”).

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on September 29, 2025. The Company received 8 Anchor Investors applications for 19,55,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹136/- per Equity Share. A total of 16,39,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹ 22,29,04,000/-.

The Offer (excluding Anchor Investors Portion) received 1,339 Applications for 58,09,000 Equity Shares (after considering invalid bids. Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB and rejections) resulting 1.41 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Offer from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	Spill Over (if Any)	Equity Shares Allotted*	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1	Individual Investors	1,257	25,14,000	19,14,000	-	19,14,000	1.31	34,45,96,000.00
2	Non-institutional Investors (More than ₹0.2 million and upto ₹ 1 million)	55	1,76,000	2,74,000	(98000)	1,76,000	1.00	2,43,23,000.00
3	Non-institutional Investors (above ₹1 million)	23	10,69,000	5,46,000	98000	6,44,000	1.66	17,02,81,000.00
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	3	17,56,000	10,93,000	-	10,93,000	1.61	23,88,16,000.00
5	Market Maker	1	2,94,000	2,94,000	-	2,94,000	1.00	3,99,84,000.00
	Total	1,339	58,09,000	41,21,000	-	41,21,000	1.41	81,80,00,000.00

*Spill over from under subscription of Non-Institutional Investor Category upto Rs. 10 lacs of 98,000 shares has been re-allocated to Non-Institutional Investor category above Rs. 10 lacs category

Final Demand:

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	129	2,12,000	2.77	2,12,000	2.77
2	130	2,000	0.03	2,14,000	2.80
3	131	2,000	0.03	2,16,000	2.83
4	133	2,000	0.03	2,18,000	2.85
5	135	8,000	0.10	2,26,000	2.96
6	136	74,14,000	97.04	76,40,000	100.00
	Total	76,40,000	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being BSE Limited (“**BSE SME**”) on October 06, 2025.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹ 136 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.31 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 19,14,000 Equity to 957 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
2,000	1,257	100.00	25,14,000	100.00	2,000	319:419	19,14,000

2) Allotment to Non-institutional Investors (More than 2 lots and up to ₹ 1,000,000) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 136 or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.00 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,76,000 Equity Shares to 55 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

3) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 1,000,000)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 136 or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.66 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 6,44,000 Equity shares (i.e. Including Spilled over of 98,000 Equity Shares from Non-Institutional Investors up to ₹ 1,000,000) to 23 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under (Sample):

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
1.	8,000	15	65.22	1,20,000	11.23	5,000	1:1	75,000
	8,000	13,000 additional shares allocated in the ratio of 13:15				1,000	13:15	13,000
2.	10,000	3	13.04	30,000	2.81	7,000	1:1	21,000
3.	18,000	1	4.35	18,000	1.68	12,000	1:1	12,000
4.	20,000	1	4.35	20,000	1.87	13,000	1:1	13,000
5.	73,000	2	8.70	1,46,000	13.66	43,000	1:1	86,000
6.	7,35,000	1	4.35	7,35,000	68.76	4,24,000	1:1	4,24,000
	TOTAL	23	100.00	10,69,000	100.00			6,44,000

4) Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Offer Price of ₹ 136/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 2,94,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 2,94,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
2,94,000	1	100.00	2,94,000	100.00	2,94,000	1:1	2,94,000

5) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 136/- or above per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 1.61 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 10,93,000 Equity Shares, which were allotted to 3 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	-	-	-	6,80,000	1,84,000	2,29,000	-	10,93,000

6) Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections):

The Company in consultation with the BRLM has allocated 16,39,000 Equity Shares to 08 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹ 136 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	VC'S	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	74,000	10,70,000	4,95,000	-	16,39,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on October 06, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on or before October 07, 2025. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on October 07, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on October 08, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated October 06, 2025, filed with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana (“RoC”).

Continued on next page

विश्व बैंक ने बढ़ाया वृद्धि अनुमान

चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया

रुधिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। इससे पहले जून में इसने 6.3 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। हालांकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक घटाकर 6.3 फीसदी कर दिया है। विश्व बैंक ने अपने दक्षिण एशिया परिदृश्य में कहा है कि उपभोग मांग वृद्धि में लगातार आ रही मजबूती के कारण भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में कटौती और अनुपालन को सरल बनाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका में भारत के लगभग तीन-चौथाई निर्यात पर ट्रंप प्रशासन द्वारा 50 फीसदी शुल्क लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2027 के लिए वृद्धि दर अनुमान को कम कर दिया गया है।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्थितियां, खास तौर पर कृषि उत्पादन और ग्रामीण इलाकों में मजदूरी में बढ़ोतरी अपेक्षा से बेहतर रही हैं।

विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2025 में 6.6 फीसदी तक पहुंच सकती है लेकिन 2026 में यह घटकर 5.8 फीसदी रह जाएगी जिसका आंशिक कारण भारत पर अमेरिका द्वारा



विश्व बैंक की रिपोर्ट

■ विश्व बैंक ने अपने दक्षिण एशिया परिदृश्य में कहा है कि उपभोग मांग वृद्धि में लगातार आ रही मजबूती के कारण भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है

■ विश्व बैंक ने कहा कि जीएसटी की दर में कटौती और अनुपालन को सरल बनाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है

■ हालांकि अमेरिका में भारत के लगभग तीन-चौथाई निर्यात पर ट्रंप प्रशासन द्वारा 50 फीसदी शुल्क लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2027 के लिए वृद्धि दर अनुमान को कम कर दिया गया है

■ रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्थितियां, खास तौर पर कृषि उत्पादन और ग्रामीण इलाकों में मजदूरी में बढ़ोतरी अपेक्षा से बेहतर रही हैं

लगाया गया ऊंचा शुल्क है। विश्व बैंक में दक्षिण एशिया की मुख्य अर्थशास्त्री फ्रांजिस्का ओहन्सोर्गे ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, 'यदि शुल्क में कटौती सहित विदेशी बाजारों तक भारत की पहुंच में सुधार होता है तो यह वृद्धि दर के लिए फायदेमंद होगा।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत ने अपने कुल वस्तुओं के निर्यात का लगभग 20 फीसदी हिस्सा अमेरिका भेजा था जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 फीसदी के बराबर है।

सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मजबूत ऋण वृद्धि और नरम मौद्रिक नीति के

समर्थन से भारत में निवेश वृद्धि का उल्लेख करते हुए विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, 'ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ने से शहरी उपभोग में मंदी की भरपाई कर दी है। इसे कारों की बिक्री और पर्सनल लोन में नरमी से देखा जा सकता है।'

विश्व बैंक ने यह भी कहा कि भारत मध्यम अवधि में दुनिया में ऊर्जा मांग का सबसे तेजी से बढ़ता स्रोत बन जाएगा और 2050 तक चीन को पीछे छोड़कर ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरेगा।

बैंक ने कहा कि 2025 की अप्रैल-जून तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

दर उम्मीद से अधिक होकर 7.8 फीसदी तक पहुंच जाएगी।


व्यापार सुधार के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले व्यापार सुधारों ने बांग्लादेश और श्रीलंका सहित कई देशों में रोजगार वृद्धि के तेज दौर शुरू किए लेकिन भारत में समग्र रोजगार पर इनका सीमित और अनिश्चित प्रभाव पड़ा।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'लगातार व्यापार तनाव, कमजोर वैश्विक व्यापार और निवेश के कारण धीमी वैश्विक वृद्धि का दौर आ सकता है जिसका असर दक्षिण एशिया तक भी पड़ सकता है।'

पीएम-कुसुम की समय-सीमा फिर बढ़ा सकती है सरकार

सरकार पीएम-कुसुम योजना की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा सकती है क्योंकि इस पहल के दो प्रमुख घटक अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाए हैं। आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक 30,800 मेगावॉट की सौर क्षमता जोड़ना था।

इसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सेवा शुल्क सहित कुल 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल थी। केंद्र ने बाद में पीएम-कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण इसका कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ था। लक्ष्य को भी संशोधित कर 34,800 मेगावॉट कर दिया गया था। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए



पीएम कुसुम के कार्यान्वयन की समय-सीमा को और बढ़ाए जाने के आसार हैं। यह इस योजना का दूसरा विस्तार होगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना के किसी भी घटक ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं किया है। यद्यपि योजना का घटक 'ख' (जो मार्च 2026 को समाप्त होगा) 9 सितंबर तक लक्ष्य का 71 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम रहा है। घटक 'क'

ने केवल 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। घटक 'ग'-व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस) एवं घटक 'ग' - फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) ने क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत लक्ष्य हासिल की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, घटक 'क' छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करके 10,000 मेगावॉट सौर क्षमता की स्थापना से जुड़ा है।

भाषा

पंजाब ने ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कथित तौर पर मिलावटी दवा के सेवन से 16 बच्चों की मौत के मद्देनजर ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, ‘कार्यालय के संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषध परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप को ‘मानक गुणवत्ता का नहीं’ घोषित किया गया है।’ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ‘दूषित’ कफ सिरप पीने से गुरे में संक्रमण से पीड़ित दो और बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

दवा का बैच नंबर एसआर-13 है, जिसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल, बैंगलोर हाईवे, सुगुवरचत्रम (मथुरा, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा किया गया है। आदेश में कहा गया है, ‘उपयुक्त दवा के निर्माण में मिलावट पाई गई है, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत

डब्ल्यू/वी) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।’

पंजाब एफडीए के आदेश में कहा गया है, ‘उक्त उत्पाद को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल में हुई बच्चों की मौत से जुड़ा पाया गया है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।’

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजाब में पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि उक्त उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है कि अगर राज्य में दवा का कोई भंडार उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी एफडीए (औषध शाखा) को प्रदान की जा सकती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले एक महीने में गुरे के काम करना बंद करने के कारण बच्चों की मौत की खबरें आईं।



तमिलनाडु में निर्मित कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ मिला हुआ पाया गया। बच्चों की मौत की घटना के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया और मध्य प्रदेश में अधिकारियों को निर्लंबित किया गया, गिरफ्तारियां की गईं, देश भर में दवा के भंडार जब्त किए गए, साथ ही केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में दवा संबंधी दिशानिर्देशों में तत्काल सख्त बदलाव किए गए।

मध्य प्रदेश में अब तक 16 की मौत

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ‘दूषित’ कफ सिरप पीने से गुरे (किडनी) में संक्रमण से पीड़ित 2 और बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में अब तक कुल 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार छिंदवाड़ा के इन बच्चों की मौत किडनी के संदिग्ध रूप से फैल होने के कारण हुई है, जो ‘विषाक्त’ कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जुड़ी हैं। छिंदवाड़ा के अपर जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने कहा, ‘आज एक और बच्ची की मौत की सूचना मिली है। अभी तक हमारे छिंदवाड़ा जिले में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है।’ सरकार ने दो औषधि निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक उप निदेशक को निर्लंबित कर दिया था और औषधि नियंत्रक का भी तबादला कर दिया था। छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाषा

प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा

सुरील मिश्र
मुंबई, 7 अक्टूबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई अंतर-राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और देश के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री राज्य के 419 आईटीआई और 141 तकनीकी संस्थानों में 2,506 बैचों के माध्यम से नए अल्पकालिक रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की पहल का भी शुभारंभ करेंगे।

नवी मुंबई हवाई अड्डे के निकट परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापु राममोहन नायडू , केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोतल , विधान सभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नावेंकर , कोशल , रोजगार,

उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा , लोक सभा सदस्य श्रीरंग बारणे, जनप्रतिनिधि और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

भारत के विमानन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने वाला नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना होगी। इस हवाई अड्डे का निर्माण सिडको प्राधिकरण और नवी मुंबई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक -निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत किया गया है।

नवी मुंबई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण पर 19,647 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और यह 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हवाई अड्डा सालाना 2 करोड़ यात्रियों और 5 लाख टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। अंतिम चरण में, यह हवाई अड्डा 9 करोड़ यात्रियों और 32.5 लाख टन कार्गो की क्षमता वाला एक विश्व स्तरीय केंद्र बन जाएगा। इस हवाई अड्डे में दो समानांतर कोड-एफ रनवे



, तेज निकास टैक्सी वे , एक अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल , 47 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन और इलेक्ट्रिक बस सेवा शामिल है। यह देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा। दिसंबर 2025 में इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के

आधुनिक, हरित और विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचे का प्रतीक होगा।

मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33.5 किलोमीटर लंबी पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन-3, आचार्य अत्रे

मुंबई वन - भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप

मुंबई महानगर में यात्रियों को निर्बाध और सुचारु यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप, मुंबई वन का अनावरण करेंगे। यह ऐप उपनगरीय रेलवे, मेट्रो लाइन , मोनोरेल , बस्ट, टीएमटी , एनएमएमटी , केडीएमटी , एम-बीएमटी , नवी मुंबई मेट्रो आदि सहित 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों से जुड़ा होगा।

मुंबई वन के माध्यम से यात्रियों को मिलेगा सुविधाओं का तोहफा

एक ही क्यूआर कोड से आप मेट्रो, बस , ट्रेन और मोनोरेल यात्रा के लिए टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इसमें विभाषी इंटरफेस (मराठी , हिंदी , अंग्रेजी) होगा। वास्तविक समय पर ट्रेन, बस की जानकारी और यात्रा योजना बनाई जा सकती है। यात्री के स्थान को साझा करने की सुविधा के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति में संचार प्रणाली भी उपलब्ध है।

continued from previous page


INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Offer, Maashitla Securities Private Limited at website: www.maashitla.com

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Offer has handled 70 Public Issues in the past three financial years, out of which 3 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	68	3 (SME)

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:



Maashitla

Creating Successful People

MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED

Address: 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi, 110034, India.

Tel No: 011-47581432 ; Email: ipo@maashitla.com

Investor Grievance ID: investor.ipo@maashitla.com

Contact Person: Mukul Agrawal ; Website: www.maashitla.com

SEBI Registration No.: INR000004370 ; CIN: U67100DL2010PTC208725

On behalf of Board of Directors

Zelio E-Mobility Limited

Sd/-

Priyanka Gar

Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hisar, Haryana

Date: 07 October, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ZELIO E-MOBILITY LIMITED

Disclaimer: Zelio E-Mobility Limited has filed the Prospectus with the RoC on October 06, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: www.zelioebikes.com and shall also be available on the website of the BSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.

Read Newspaper and Magazines Telegram Channel Join Search https://t.me/Magazines 8890050582 (@Magazines 8890050582)

On behalf of Board of Directors

Zelio E-Mobility Limited

Sd/-

Priyanka Garg

Company Secretary and Compliance Officer

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



[Please scan this QR Code to view the Prospectus]

ZELIO E-MOBILITY LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited Company in the name of “Zelio Auto Private Limited” under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated on July 15, 2021 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, bearing CIN: U34102HR2021PTC096362. Further, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on October 25, 2024, the name of our Company was changed from “Zelio Auto Private Limited” to “Zelio E-Mobility Private Limited” and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre vide letter dated November 21, 2024. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 22, 2024 and consequently the name of our Company was changed from “Zelio E-Mobility Private Limited” to “Zelio E-Mobility Limited” vide a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company dated November 29, 2024 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. Our Company’s Corporate Identity Number is U34102HR2021PLC096362.

Registered Office: Shop No. 542, 1st Floor, Auto Market, Hisar – 125001, Haryana, India; **Corporate Office:** Khewat No. 510 442, Hisar Road, Ladwa, Hisar – 125006, Haryana, India.
Tel No: +91 – 9254993057/ 9254071396; **E-mail:** cs@zelioebikes.com; **Website:** www.zelioebikes.com
Contact Person: Priyanka Garg, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: NIRAJ ARYA, KUNAL ARYA, DEEPAK ARYA AND SAYURI ARYA

“THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE (BSE SME).”

We are primarily engaged in the business of manufacturing, assembling and supplying of electric vehicles, offering a range of electric two-wheelers (“E-2Ws”) and three-wheelers (“3Ws”), available in a variety of design, color, speed variants etc. We are an ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company, operating under the brand name “Zelio” for E-2Ws and “Tanga” for 3Ws and focussing exclusively on the production of E-2Ws and 3Ws which serves environmental benefits such as lower emissions, reduced noise, energy sustainability etc. We launched the first range of electric scooters in FY 2021-22 and operate through a network of exclusive and non-exclusive dealers spanning across urban, semi-urban, and rural areas.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 57,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ZELIO E-MOBILITY LIMITED (“OUR COMPANY” OR “THE ISSUER”) AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 126 PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 7833.60 LAKHS (“PUBLIC OFFER”) COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 46,20,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 6,283.20 LAKHS (THE “FRESH ISSUE”) AND AN OFFER FOR SALE OF 11,40,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS (“OFFER FOR SALE”) AGGREGATING TO ₹ 1,550.40 LAKHS COMPRISING; 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY NIRAJ ARYA; 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY KUNAL ARYA AND 3,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 516.80 LAKHS BY DEEPAK ARYA (COLLECTIVELY REFERRED AS “PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS”) OUT OF WHICH 2,94,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 399.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 54,66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 136 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 7,433.76 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET OFFER”. THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.23% AND 25.84% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS.10 AND OFFER PRICE IS RS. 136 EACH. THE OFFER PRICE IS 13.6 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: RS. 136 PER EQUITY SHARE. THE OFFER PRICE IS 13.6 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025

BID / OFFER OPENED ON: TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025

BID / OFFER CLOSED ON: FRIDAY, OCTOBER 03, 2025

RISKS TO INVESTORS:

- Our Company has been recently formed, thus we have limited operating history as a Company which may make it difficult for investors to evaluate our historical performance or future prospects.
- Our Company is dependent on limited number of suppliers within limited geographical location for procurement of raw materials. Any delay, interruption or reduction in the supply of raw materials required for our products may adversely affect our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- We generate our major portion of turnover from our operations in certain geographical regions and any adverse developments affecting our operations in these regions could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- We source our majority of the raw materials from international market i.e. China. Any adverse developments affecting our procurement in this region could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- We require certain approvals, licenses, registrations and permits to operate our business, and failure to obtain or renew them in a timely manner or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business may adversely affect our operations and financial conditions.
- Our historical performance is not indicative of our future growth or financial results and we may not be able to sustain our historical growth rates.
- Our business is dependent on our manufacturing unit and we are subject to certain related risks; Unplanned slowdowns, unscheduled shutdowns or prolonged disruptions in our manufacturing operations could have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- We may not be able to adequately protect or continue to use our intellectual property.
- The restated financial statements have been provided by peer reviewed chartered accountants who is not statutory auditor of our company.
- We have experienced negative operating cash flows in the past. Any operating losses or negative cash flows in the future could adversely affect our results of operations and financial conditions.
- The Merchant Banker associated with the Issue has handled 70 public issues in the past three years out of which 3 SME issue closed below the Issue Price on listing date.

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hern Securities Limited	2	68	3 (SME)

- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters and Selling Shareholder are

Sr. No.	Name of Promoter Selling Shareholder	Type	No. of Shares Offered	Average Cost of Acquisition (in ₹)
1.	Niraj Arya	Promoter	55,09,449	0.02
2.	Kunal Arya	Promoter	55,08,898	0.02
3.	Deepak Arya	Promoter	55,09,449	0.02

and the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 136 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 14.05
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024, and 2023 is 61.42%.
- The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest rice – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 Months & three years preceding the date of the Prospectus	NIL	NIL	NIL

- The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares of face value of ₹. 10/-)	Floor Price (i.e. ₹129)	Cap Price (i.e. ₹136)
Weighted average cost of acquisition of primary / new Offer	NA^^	NA^^^	NA^^^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition	NA^^	NA^^^	NA^^^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances/ secondary transactions	NIL	NIL	NIL

Note:

^^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned, in last 18 months from the date of the Prospectus.

^^There were no secondary transactions as mentioned, in last 18 months from the date of the Prospectus.

PROPOSED LISTING: OCTOBER 08, 2025 *

The Offer was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (“SCRR”) read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”, the “QIB Portion”), Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (“Anchor Investor Portion”). Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see **“Offer Procedure”** beginning on page 279 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or before October 08, 2025*

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE (“**BSE SME**”).

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on September 29, 2025. The Company received 8 Anchor Investors applications for 19,55,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹136/- per Equity Share. A total of 16,39,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹ 22,29,04,000/-.

The Offer (excluding Anchor Investors Portion) received 1,339 Applications for 58,09,000 Equity Shares (after considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB and rejections) resulting 1.41 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Offer from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	Spill Over (If Any)	Equity Shares Allotted*	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1	Individual Investors	1,257	25,14,000	19,14,000	-	19,14,000	1.31	34,45,96,000.00
2	Non-institutional Investors (More than ₹0.2 million and upto ₹ 1 million)	55	1,76,000	2,74,000	(98000)	1,76,000	1.00	2,43,23,000.00
3	Non-institutional Investors (above ₹1 million)	23	10,69,000	5,46,000	98000	6,44,000	1.66	17,02,81,000.00
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	3	17,56,000	10,93,000	-	10,93,000	1.61	23,88,16,000.00
5	Market Maker	1	2,94,000	2,94,000	-	2,94,000	1.00	3,98,84,000.00
	Total	1,339	58,09,000	41,21,000	-	41,21,000	1.41	81,88,00,000.00

*Spill over from under subscription of Non-Institutional Investor Category upto Rs. 10 lacs of 98,000 shares has been re-allocated to Non-Institutional Investor category above Rs. 10 lacs category

Final Demand:

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	129	2,12,000	2.77	2,12,000	2.77
2	130	2,000	0.03	2,14,000	2.80
3	131	2,000	0.03	2,16,000	2.83
4	133	2,000	0.03	2,18,000	2.85
5	135	8,000	0.10	2,26,000	2.96
6	136	74,14,000	97.04	76,40,000	100.00
	Total	76,40,000	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being BSE Limited (“**BSE SME**”) on October 06, 2025.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹ 136 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.31 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 19,14,000 Equity to 957 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
2,000	1,257	100.00	25,14,000	100.00	2,000	319:419	19,14,000

2) Allotment to Non-Institutional Investors (More than 2 lots and up to ₹ 1,00,000) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 136 or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.00 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,76,000 Equity Shares to 55 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ratio of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
1.	3,000	50	90.91	1,50,000	85.23	3,000	1:1	1,50,000
2.	4,000	2	3.64	8,000	4.55	4,000	1:1	8,000
3.	5,000	1	1.82	5,000	2.84	5,000	1:1	5,000
4.	6,000	1	1.82	6,000	3.41	6,000	1:1	6,000
5.	7,000	1	1.82	7,000	3.98	7,000	1:1	7,000
	Total	55	100.00	1,76,000	100.00			1,76,000

3) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 1,00,000)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 136 or above per Equity Share was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 1.66 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 6,44,000 Equity shares (i.e., Including Spilled over of 98,000 Equity Shares from Non-Institutional Investors up to ₹ 1,00,000) to 23 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under (Sample):

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
1.	8,000	15	65.22	1,20,000	11.23	5,000	1:1	75,000
	8,000	13,000 additional shares allocated in the ratio of 13:15				1,000	13:15	13,000
2.	10,000	3	13.04	30,000	2.81	7,000	1:1	21,000
3.	18,000	1	4.35	18,000	1.68	12,000	1:1	12,000
4.	20,000	1	4.35	20,000	1.87	13,000	1:1	13,000
5.	73,000	2	8.70	1,46,000	13.66	43,000	1:1	86,000
6.	7,35,000	1	4.35	7,35,000	68.76	4,24,000	1:1	4,24,000
	TOTAL	23	100.00	10,69,000	100.00			6,44,000

4) Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Offer Price of ₹ 136/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 2,94,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 2,94,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/allotted
2,94,000	1	100.00	2,94,000	100.00	2,94,000	1:1	2,94,000

5) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 136/- or above per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 1.61 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 10,93,000 Equity Shares, which were allotted to 3 successful Applicants.

Category	FIS/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	-	-	-	6,80,000	1,84,000	2,29,000	-	10,93,000

6) Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections):

The Company in consultation with the BRLM has allocated 16,39,000 Equity Shares to 08 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹ 136 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	VC'S	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	74,000	10,70,000	4,95,000	-	16,39,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on October 06, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on or before October 07, 2025. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on October 07, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on October 08, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated October 06, 2025, filed with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana (“RoC”).

Continued on next page

महिला विश्व कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा ऑस्ट्रेलिया

बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान आठ टीम के टूर्नामेंट में अभी अंतिम स्थान पर है

➞ **ऑस्ट्रेलिया ने 300 से अधिक का स्कोर खड़ा करने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन की आसान जीत दर्ज की थी**

एजेंसी

कोलंबो। अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाला ऑस्ट्रेलिया बुधवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में लय हासिल करने के लिए जूझ रही है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन अन्य टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग रहा है। एलिसा हिली की अगुवाई वाली टीम अब तक टूर्नामेंट में 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली एकमात्र टीम रही

तीन भारतीय आईसीसी के सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामांकित

दुबई। भारत के करिश्माई खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव (पुरुष वर्ग में) और स्मृति मंधाना (महिला वर्ग में) सितंबर महीने के लिए ‘आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। बाएं हाथ के टी20 विशेषज्ञ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने यूपई में खेले गए एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सात टी20 मैच में तीन अर्धशतक की मदद से 314 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा और उन्हें इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इस 25 साल के बल्लेबाज ने पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की सर्वाधिक रेटिंग 931 अंक (बल्लेबाजी) भी हासिल की। कलाई के वाहमश्त स्पिनर कुलदीप ने भी इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने एशिया कप में 6.27 की इकोनॉमी दर से गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाये। एशिया कप में उन्होंने अपना अभियान यूपई के खिलाफ सात रन पर चार विकेट के साथ सुरु किया जबकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन पर चार विकेट लेकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की।

भारत में गोल्फ की प्रगति पर चर्चा के लिए युवराज सिंह, आईजीपीएल टीम से मिले मांडविया

नयी दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) के सह संस्थापक युवराज सिंह से मुलाकात की और भारत में गोल्फ के विकास पर चर्चा की। भारतीय गोल्फ संघ (आईजीयू), भारतीय महिला गोल्फ संघ (डब्ल्यूजीआई) और भारतीय पीजीए के सहयोग से आयोजित देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग आईजीपीएल अगले साल जनवरी में छह शहर आधारित टीम के साथ आयोजित होने वाली है इस टूर्नामेंट में पेशेवर और एमेच्योर दोनों तरह के पुरुष और महिला गोल्फ खिलाड़ी टीम आधारित स्पर्धाओं में एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। युवराज ने विज्ञापित में कहा, ‘‘हम माननीय खेल मंत्री के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। उनका प्रोत्साहन हमारे लिए भारत भर में गोल्फ को और अधिक सुलभ और लोकप्रिय बनाने के हमारे मिशन को जारी रखने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है।’ जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, गगनजीत भुल्लर, गौरव घई, शिव कपूर और एसएसपी चौरसिया जैसे अनुभवी भारतीय गोल्फरों ने लीग के पहले सत्र के लिए आइकन खिलाड़ी के रूप में अनुबंध किया है। पिछले महीने आईजीपीएल ने 11 स्पर्धाओं वाला अपना पहला टूर शुरू किया था। यह टूर कई शहरों में आयोजित किया जाएगा और श्रीलंका तथा यूएई में भी टूर्नामेंट होंगे। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) आईजीपीएल को मान्यता नहीं देता और ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स में 17 से 19 सितंबर तक हुए आईजीपीएल के टूर्नामेंट में खेलने के लिए ओलंपिक और एशियाई टूर विजेता भुल्लर, अमनराज, हरेंद्र गुप्ता, करणदीप कोचर और सचिन बैसोया जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठा चुका है। आईजीपीएल की इस प्रतियोगिता की तारीखें पीजीटीआई के चेन्नई ओपन से टकरा रही थीं।



है और पिछले दो मैच में बांग्लादेश और भारत के खिलाफ कमजोर दिखे पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने 300 से अधिक का स्कोर खड़ा करने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन की आसान जीत दर्ज की थी। टीम की नजरें रिकॉर्ड में सुधार करने वाले आठवें विश्व कप खिताब पर टिकी हैं। हालांकि सलामी बल्लेबाज एलिसा हिली, बेथ मूनी और एनाबेल सदरलैंड जैसी बल्लेबाज लड़खड़ा रही हैं लेकिन एश्ले गार्डनर ने इंदौर में न्यूजीलैंड के

खिलाफ मैच में शानदार शतक जड़कर अंत में मुकाबला एकतरफा बना दिया। एनाबेल सदरलैंड की तेज गेंदबाजी और सोफी मोलिन्यु की स्पिन की बदैलत ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी विभाग में अच्छ प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका जैसी कड़ी टीमों से मुकाबला करने से पहले टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। भारत के खिलाफ तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला ने ऑस्ट्रेलिया को उममहाद्वीप के मैदानों पर कड़ी मेहनत के

भारत के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला के लिए स्टार्क की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी

एजेंसी

मेलबर्न। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम में वापसी हुई है जबकि कमर की चोट से उबर रहे पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। पिछले महीने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने वाले स्टार्क वेस्टइंडीज के टेस्ट दौर से लौटने के बाद अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहे थे। एशेज से पहले उनके काम के बोझ को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। उन्होंने पिछला एकदिवसीय मैच नवंबर 2024 में एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। दक्षिण अफ्रीका के लिए 1-2 से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम में शामिल किए गए चार खिलाड़ियों में से स्टार्क एक हैं। इसके अलावा पदार्पण का इंतजार कर रहे बल्लेबाज मैथ्यू रेंशॉ, मैट शॉर्ट और मिच ओवेन को भी टीम में जगह मिली है। शॉर्ट पिछली श्रृंखला में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेल पाए थे और ओवेन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20



अंतरराष्ट्रीय चरण के दौरान कन्कशन (सिर में चोट लगने के कारण बेहोशी जैसी स्थिति) का शिकार हो गए थे। कमिंस की अनुपस्थिति में मार्श एकदिवसीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे जो एशेज की तैयारी के लिए कमर की हड्डी में खिंचाव से उबर रहे हैं। चयनकर्ताओं ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के इरादे से शुरुआती दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए मार्श की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का भी चयन किया है। एलेक्स कैरी रथ में होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह एडिलेड ओवल में

टीम इस प्रकार हैं

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, एलेना किंग, फोएबे लिवफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यु, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगान शुद्ध, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहेम।

पाकिस्तान : फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, यमगन फातिमा, मुनीबा अली, नशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमेमा सोहेल, रमीन शमीम, सदक शमस, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज और सैयदा अरुब शाह।

लिए अच्छी तरह तैयार किया है और पाकिस्तान के उसे परेशान करने की संभावना नहीं है। बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान आठ टीम के टूर्नामेंट में अभी अंतिम स्थान पर है। हालांकि शनिवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ रद्द हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए निराशाजनक रहा क्योंकि इसने टीम से दो अंक अर्जित करने और तालिका में शीर्ष पर पहुंचने का मौका खीन लिया। फातिमा सना की अगुआई वाली पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश (सात विकेट से हार) और भारत (88

रन से हार) के खिलाफ मैच में खेल के सभी विभागों में कमजोर साबित हुई। टीम की बल्लेबाजी में गहराई की कमी और मध्यक्रम में अच्छे बल्लेबाजों की अनुपस्थिति के कारण पाकिस्तान टूर्नामेंट में अब तक दो मैच में 200 रन के आकड़े को भी नहीं छू पाया है। इन दो मैच में सिदरा अमीन, फातिमा सना और मुनीबा अली जैसी स्टार बल्लेबाज संघर्ष करती दिखीं। कप्तान सना और डायना बेग की अगुवाई में टीम की गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ लाइन और लेंथ के लिए जुझती दिखीं और 18 अतिरिक्त रन दे बैठीं।

आनंद और कास्परोव के बीच 30 साल बाद फिर होगा मुकाबला

सेंट तुई (अमेरिका)। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद अपनी प्रतिद्वंद्विता को फिर जीवंत करेंगे जब वे बुधवार से यहां ‘क्लब शतरंज- द लीजेंड्स टूर्नामेंट’ में आमने-सामने होंगे। इस 12 बाजी वाले शतरंज मुकाबले की कुल इनामी राशि 1,44,000 डॉलर होगी और इसका आयोजन नवीनीकृत सेंट तुई शतरंज क्लब में किया जाएगा। वर्ष 1995 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 107वीं मंजिल पर क्लासिकल विश्व चैंपियनशिप मैच खेलने के बाद खेल के ये दो दिग्गज रैपिड एवं ब्लिट्ज़ प्रारूप में एक बार फिर आमने-सामने होंगे जिसे हाल ही में फ्रीस्टाइल शतरंज का नाम दिया गया है। कास्परोव ने आनंद के खिलाफ उस मुकाबले में दबका बनाया था और 20 बाजी का मुकाबला 10.5-7.5 से जीता था। 2004 में संन्यास लेने के बाद से कास्परोव केवल प्रदर्शनी या ब्लिट्ज़ प्रतियोगिताओं में ही खेले हैं जबकि आनंद अब कभी-कभार शीर्ष प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतिदिन चार बाजी होंगी जिसमें दो रैपिड और दो ब्लिट्ज़ बाजी होंगी। पहले दिन जहां चार अंक दोगे पर होंगे तो वहीं दूसरे दिन वह दोगुने हो जाएंगे और प्रत्येक जीत पर दो अंक मिलेंगे। तीसरे दिन प्रत्येक बाजी जीतने पर तीन अंक मिलेंगे। विजेता को 70,000 डॉलर (लगभग 62 लाख रुपये) मिलेंगे जबकि हारने वाले को 50,000 डॉलर (लगभग 44 लाख रुपये) मिलेंगे। अगर 12 बाजी के बाद मैच बराबरी पर रहता है तो इनामी राशि आधी-आधी बांटी जाएगी जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 60,000 डॉलर (करीब 53 लाख रुपये) मिलेंगे।

स्मृति मंधाना आईसीसी एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

एजेंसी

दुबई। मौजूदा महिला एकदिवसीय विश्व कप के दो मैच में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना



अंक हैं और वह इंग्लैंड की नेट स्क्वэр बंट से 60 अंक आगे हैं। विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन महिला एकदिवसीय मैच की श्रृंखला में लगातार दो

शतक जड़ने वाली स्मृति श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ आठ जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 23 रन ही बना सकीं।

ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम (शुरुआती दो मैच)

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एटट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्रॉयड्स, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहेमैन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्क्स स्टोइनिस और एडम जंप।

क्रॉसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलेंगे। वह न्यूजीलैंड दौर के कारण शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे। जोश इंग्लिस पिंडली में मामूली चोट के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं जबकि नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं।

पहले बीएफआई कप के पुरुष वर्ग में सेना के मुक्केबाजों का दबदबा

एजेंसी

चेन्नई। सेना के मुक्केबाजों ने पहले बीएफआई कप के मंगलवार को यहां संपन्न पुरुष वर्ग में दबदबा कायम किया जिसमें एस विश्वनाथ, मोहम्मद हुसामुद्दीन, वंशज, सचिन और अंकुश ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। एशियाई अंडर-22 चैंपियन सेना के एस विश्वनाथ ने 47-50 किग्रा वर्ग के फाइनल में हरियाणा के आशीष पर 5-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की। सेना के आशीष ने 50-55 किग्रा वर्ग के करीबी मुकाबले में एआर्डीएस के नवराज को 3-2 से हराया। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सेना के हुसामुद्दीन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 55-60 किग्रा वर्ग के मुकाबले में भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के सागर जाखड़ को 5-0 से हराया। सेना के वंशज ने 60-65 किग्रा वर्ग में अपनी ही टीम के



प्रीत मलिक को 3-2 से शिकस्त दी जबकि साइ के सुमित कुमार ने 65-70 किग्रा के फाइनल में सेना के रजत को 5-0 से हराया। सेना के सचिन ने 70-75 किग्रा के फाइनल में हरियाणा के नीरज के खिलाफ 5-0 की आसान जीत के साथ टीम का दबदबा बनाए रखा जबकि टीम के उनके साथी अंकुश ने 75-80 किग्रा के फाइनल में चंडीगढ़ के अमन पर 5-0 की एकतरफा जीत दर्ज की। सेना के नवीन बुरा ने 80-85 किग्रा वर्ग में रेलवे के विनीत को हराया जबकि साइ के दक्ष ने सेना के निशाल गुप्ता को 3-2 से हराकर 85-90 किग्रा का खिताब

अस्तीकरण सूचना
पाठकों को इस प्रकाशन में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में कैसे भेजने, कोई भी खर्च उठाने या किसी भी बंदे-दाने पर अमल करने से पहले उपयुक्त घुछताछ करने और उचित परामर्श लेने को सलाह दी जाती है। जगमार्ग विज्ञापनदाताओं के उपयोग और सेवाओं को लेकर किए गए दानों को नियंत्रित नहीं करता है। अगर विज्ञापनदाता ऐसे दानों का सम्मान नहीं करते हैं तो जगमार्ग प्रकाशन समूह को किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा।

Continued from previous page


INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Offer, Maashitla Securities Private Limited at website: www.maashitla.com

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Offer has handled 70 Public Issues in the past three financial years, out of which 3 Issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	68	3 (SME)

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:



Maashitla®
Creating Successful People

MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED
Address: 451, Krishna Agra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi, 110034, India.
Tel No: 011-47561432 ; Email: ipo@maashitla.com
Investor Grievance ID: investor.ipo@maashitla.com
Contact Person: Mukul Agrawal ; Website: www.maashitla.com
SEBI Registration No.: INR000004370 ; CIN: U67100DL2010PTC208725

On behalf of Board of Directors
Zelio E-Mobility Limited
Sd/-
Priyanka Garg
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hisar, Haryana
Date: 07 October, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ZELIO E-MOBILITY LIMITED

Disclaimer: Zelio E-Mobility Limited has filed the Prospectus with the RoC on October 06, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: www.zelioebikes.com and shall also be available on the website of the BSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public issuing in the United States.

महिला विश्व कप: विशाखापत्तनम की संतुलित पिच से भारतीय बल्लेबाजों को मिलेगी राहत

एजेंसी

विशाखापत्तनम। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां दो महत्वपूर्ण मैच खेलने वाली भारतीय टीम के बल्लेबाजों को संतुलित पिच से मिलने वाली मदद से राहत मिलेगी क्योंकि मेजबान टीम की बल्लेबाज मौजूदा महिला क्रिकेट विश्व कप में अच्छ प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम बृहस्पतिवार को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में भिड़ेगी। यह मैदान 23 जनवरी 2014 को श्रीलंका के खिलाफ भारत के मैच के बाद 11 साल के अंतराल पर किसी महिला एकदिवसीय मैच की मेजबानी कर रहा है। आंध्र क्रिकेट संघ (एसीए) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘अगर आप आईपीएल सहित पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें तो पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी। अगर उसने नहीं होगा तो गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनरों को मैच आगे बढ़ने पर कुछ मदद मिलेगी।’’ यहां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में आम तौर पर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं क्योंकि भारतीय पुरुष टीम और दिल्ली कैपिटल्स (आईपीएल में) दोनों ही 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे हैं।



पुरुषों के वनडे में 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पांच विकेट पर 387 रन का स्कोर इस स्टेडियम पर सर्वोच्च स्कोर है। इस स्टेडियम में चार बार 320 से अधिक और छह बार 280 से 299 के बीच स्कोर बना है। भारतीय महिला टीम इ आंकड़ों का तहे दिल से स्वागत करेगी क्योंकि उसे आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गुवाहाटी और कोलंबो में क्रमश आठ विकेट पर 269 रन (श्रीलंका के खिलाफ) और 247 रन (पाकिस्तान के खिलाफ) बनाने के लिए काफी मशकत करनी पड़ी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 अक्टूबर को होने वाले मैच से पहले एसीए-वीडीसीए स्टेडियम के स्टेड को पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और विकेटकीपर रवि कल्पना का नाम दिया जाएगा। यह फैसला भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना द्वारा आपस्त में ‘ब्रेकिंग द बाउंड्रीज’ कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश को दिए गए सुझाव के बाद लिया गया।

अजय बाबू विश्व भारोतोलन चैंपियनशिप के पुरुष 79

किग्रा वर्ग में 16वें स्थान पर

फोर्ड (नॉर्वे)। राष्ट्रमंडल चैंपियन भारोतोलक अजय बाबू वल्लुरी यहां विश्व चैंपियनशिप में पुरुष 79 किग्रा वर्ग में 16वें स्थान पर रहे जिससे मीराबाई वानू के 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक के बाद भारतीय खिलाड़ी प्रभावित करने में नाकाम रहे। बीस साल के अजय ने कुल 323 किग्रा (146 किग्रा स्नेच और 177 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाया और सोमवार को 39 प्रतिभागियों के बीच 16वां स्थान हासिल किया।